

JITF INFRALOGISTICS LIMITED

Jindal ITF Centre, 28, Shivaji Marg, New Delhi-110015; Tel. No.: 011-66463983/84; Fax No.: 011-66463982

Dated: 07.09.2022

To,

BSE Limited

Corporate Relation Department Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai- 400001

Scrip Code: 540311

Through: BSE Listing Centre

National Stock Exchange of India Ltd.,

Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400 051

Scrip Code: JITFINFRA

Through: NEAPS

<u>Sub.</u> —: Newspaper Advertisement- Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations")

Dear Sir,

Pursuant to the applicable provisions of the SEBI Listing Regulations, we enclose the copies of newspaper advertisement published in Financial Express (English) and Jan-Satta (Hindi), regarding E- voting information for 15th Annual General Meeting of the Company, in compliance with section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI Listing Regulations.

This is for your information and record please.

Thanking You,

.....

Yours Faithfully FOR JITF INFRALOGISTICS LIMITED

ALOK KUMAR COMPANY SECRETARY ACS No. 19819 Encl: As Above

पंजीकृत एवं कॉरपोरेट कार्यालय : येस बैंक हाउस, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, संताकृज ईस्ट, मुम्बई– 400055, मेल: communications@yesbank.in, वेबसाईट : www.yesbank.in :CIN: L65190MH2003PLC143249 क्षेत्रीय कार्यालयः 5वां तल, मैक्स टॉवर, सेक्टर 16वी, नोएडा, उत्तरप्रदेश- 201301

अचल संपत्ति की बिक्री हेत् बिक्री सूचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(5) के साथ पठित नियम 8(6) के अंतर्गत

अचल प्रतिभृत आस्ति के विक्रय हेत् 30 दिवस की पूर्व विक्री सूचना मैसर्स वेलॉय मेटल कंपनी जरिये इसके प्रोपराईटर (ऋणी) द्वारा प्राप्त उधार सविधाओं को सरक्षित करने के लिए नीचे उल्लेखित अचल संपत्ति येस बैंक लिमिटेड के पक्ष में गिरबी रखी गई है। जैसा कि आपने 28.12.2021 को सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की उपेक्षा की और उसमें उल्लेखित बकाया राशि का भुगतान करने में असफल रहे, हमने नीचे दी गई अचल संपत्ति को 16.07.2022 को भौतिक कब्जे में लिया है। हम आपको यह भी सुचित करते है कि ई-नीलार्म के माध्यम से नीचे उल्लेलिखित संपत्तियों को दिनांक 11 अक्टूबर, 2022 को बेचा जाएगा। ई-नीलामी का विवरण अर्थात् संपत्ति विवरण, आरक्षित मूल्य और धारेका गणि जाए (र्जाणकी) जीके क्रिकेट है...

ऋणी/बंधककर्ता/जमानतकर्ताओं	सम्पत्ति का विवरण	राशि एवं	आरक्षित	धरोहर
साझेदारों के नाम		दिनांक	मूल्य	राशि
1. मैसर्स वैलॉयज मेटल कंपनी जिर्चये प्रोपराईटर ('ऋणी'), पता— 5623, तीसरी मंजिल, बस्ती हरफूल सिंह, सदर बाजार, दिल्ली— 110006, 2. श्री अवधेश कुमार गुप्ता ('बंधककर्ता और जमानतदार'), पता— 5623, तीसरी मंजिल, बस्ती हरफूल सिंह, सदर बाजार, दिल्ली— 110006, यहां भी— जी—1236, पहली मंजिल, सी आर पार्क, नई दिल्ली— 110019. 3. श्रीमती नीलम गुप्ता ('बंधककर्ता और जमानतदार'), पता— 5623, तीसरी मंजिल, बस्ती हरफूल सिंह, सदर बाजार, दिल्ली— 110006, यहां भी— जी—1236, पहली मंजिल, सी आर पार्क, नई दिल्ली— 110019. 4. श्री अनिकेश कुमार गुप्ता ('जमानतदार') पता— 5623, तीसरी मंजिल, बस्ती हरफूल सिंह, सदर बाजार, दिल्ली— 110006, यहां भी— जी—1236, पहली मंजिल, सी आर पार्क, नई दिल्ली— 110019	अटेच बाधरूम्स, ड्राविंग/डाईनिंग, एक किचन, सामने और पीछे बालकनी अलग से पानी और बिजली कनेक्शन्स के साथ एवं भवन के नीचे भूमि के आनुपातिक अधिकारों के साथ-साथ कॉमन सर्विंसेज, सीढ़ियों आदि का उपयोग जो सम्पत्ति संख्या जी-1236, प्रथम तल जिसका क्षेत्रफल 161 वर्गगज जो चितरंजन पार्क (सीआर	(रूपये दो करोड़ चाँसठ लाख तेरह हजार आठ सी चाँरानवे मात्र) दिनांक 21 नवम्बर, 2021	रू. 1,36,00,000/- (रूपये एक करोड़ छत्तीस लाख मात्र)	रू. 13,60,000/ (रूपये तेरह लाख साठ हजार मात्र)

क्षणी/ जमानतदारी/सुरक्षा प्रदाताओ एवं कानूनी वारिसी की बकाया राशि रू. 2,64,13,894/- (रूपये दो करोड़ चीसठ लाख तरह हजार आठ सी चीरानवे मात्र) दिनाक 2 नवम्बर, 2021 तक + आगे का ब्याज एवं लागतों को प्रतिभूत हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियम 8(5) के साथ पठित नियम 8(6) के प्रावधान अनुसार इस सूचन के 30 दिनों के भीतर भगतान करने के लिए अनुरोध किया जाता है। यदि ऋणी/ जमानतदारों/ सरक्षा प्रदाता एवं कानूनी वारिस ऋण का भगतान करने में विफल रहता है तो 'जहां है जैसा है, जो है जैसी है, जो कुछ भी है तथा और बिना किसी संसाधन" के आधार पर उपर वर्णित ई–नीलामी के अनुसार संपत्ति को बेचा जाएगा।

(प्राधिकृत अधिकारी) वास्ते येस बँक लिमिटेड

BANK

YES // BANK

पंजीकृत एवं कॉरपोरेट कार्यालय : येस बैंक हाउस, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, संताकृज ईस्ट, मुम्बई— 400055, फोन: +91 (22) 65078152 फैक्स: +91(22) 24214500,

मेल: communications@yesbank.in, वेबसाईट : www.yesbank.in :CIN: L65190MH2003PLC143249 क्षेत्रीय कार्यालयः ५वां तल. मैक्स टॉवर, सेक्टर १६वी, नोएडा, उत्तरप्रदेश- 201301

अचल सम्पत्ति की बिक्री हेत् विक्रय सूचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परन्तुक के साथ संपठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।

आम जनता को तथा विशेष रूप से ऋणियों तथा जमानतरों को सुचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो येस बैंक लिमिटेड (प्रतिभृति लेनदार) के पास गिरबी/प्रभारित है, का कब्जा प्रतिभृति लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है जैसा है, जो है जैसी है, तथा जो कुछ भी है" के आधार पर (1) मैसर्स बैलायज मेटल कंपनी जरिये प्रोपराईटर (ऋणी) (2) श्री अवधेश कुमार गुप्ता (बंधककर्ता और जमानतदार), (3) श्रीमती नीलम गुप्ता (बंधककर्ता और जमानतदार), (4) श्री अनिकेश कुमार गुप्ता (जमानतदार) (यहां क्रम 2 एवं 4 को आगे संयुक्त रुप से 'जमानतदारों'' के नाम से सम्बोधित किया गया है) से प्रतिभृति लेनदार के कुल रू.2,64,13,894/-(रूपये दो करोड़ चौंसठ लाख तेरह हजार आठ सौ चौरानवे मात्र) दिनांक 2 1 नवम्बर, 202 1 तक बकाया + आगे का व्याज, खर्चों एवं लागतों की वसुली हेत दिनांक 11 अक्टबर, 2022 को बेचा जाएगा। सम्पत्तियों का विवरण, आरक्षित मुल्यों (जिससे कम पर सम्पत्तियों की बिक्री नहीं होगी) तथा धरोहर राशि जमा के बारे में विस्तार से नीचे दी गई तालिका में विशेष रूप से बताया गया है:-

दस्तावेजों के अनुसार बंधक सम्पत्तियों का विवरण	कब्जे का प्रकार (भौतिक/रचनात्मक)	आरक्षित मूल्य (रू.)	धरोहर राशि
सम्पूर्ण प्रथम तल के साथ तीन बेडरूम अटेच बाथरूम्स, ड्राविंग/डाईनिंग, एक किचन, सामने और पीछे बालकनी अलग से पानी और विजली कनेक्शन्स के साथ एवं भवन के नीचे भूमि के आनुपातिक अधिकारों के साथ-साथ कॉमन सर्विसेज, सीढ़ियों आदि का उपयोग जो सम्पत्ति संख्या जी-1236, प्रथम तल जिसका क्षेत्रफल 161 वर्गगज जो चितरंजन पाकं (सीआर पाकं), नई दिल्ली- 110019 में स्थित।	Hillian	रू. 1,36,00,000/- (रूपये एक करोड छत्तीस लाख मात्र)	रू. 13,60,000/- (रूपये तेरह लाख साठ हजार मात्र)

इं--नीलामी के माध्यम से अचल संपत्तियों की बिक्री की नियम व शतें:-

. इंपलियों का निरीक्षण:— इच्छक पार्टिया दिनांक 07 अक्टबर, 2022 को सबह 11:30 से शाम 4:00 के मध्य संपत्ति का निरीक्षण कर सकती है।

धरोहर राशि जमा कराने की अंतिम तिथि व समय:- 10 अक्टूबर, 2022 को शाम 5 बजे तक।

नीलामी बिक्री ऑनलाईन ई-नीलामी/ बोली प्रक्रिया के जरिये YBL के अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेन्ट टेक्नोलॉॉजज लिमिटेड जिसका कार्यालय बी-704-705. वॉल स्ट्रीट-द्वितीय, ऑरियंट क्लब के सामने, गुजरात कॉलेज के पास, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006, गुजरात, सहायता हेतु सम्पर्क 9374519754, सम्पर्क व्यक्ति- राम प्रसाद एवं चिंतन भटत. मो. नं. 08000023297 / 99785 91888, लेण्ड लाईन नं. 079-68136837/80/43/44 एवं हेल्प लाईन ई-मेल आईडी: <u>ramprasad@auctiontiger.ne</u>f

chintan.bhatt@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net वेबपोर्टल https://sarfaesi.auctiontiger.net ऑक्शन टॉइगर मोबाईल एप्प पर भी की जायेगी। नीलामी बिक्री 11 अक्टूबर, 2022 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 के मध्य 5 मिनट स्वतः विस्तार के साथ बोली के निर्धारित समाप्ति समय से पांच मिनट पूर्व तक लगाई ज सकती है। जमा की जाने वाली निविदा राशि प्राधिकृत अधिकारी/बैंक द्वारा निश्चित किये गये आरक्षित मूल्य से अधिक होनी चाहिए तथा बोलीदाता अपने प्रस्तावों को रूपरे 50,000/- (पचास हजार) के गुणक में बढ़ा सकेंगे। प्राधिकत अधिकारी हारा निश्चित किये गये आरक्षित मूल्य से कम पर सम्पत्ति को नहीं बेचा जायेगा। आरक्षित मूल्य से कम प्राप्त

निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी। सफलतम बोलीदाता को क्रय मूल्य (धरोहर जमा राशि शामिल है) के 25% ई-नीलामी विक्रय प्रक्रिया के समाप्त होने के 24 घण्टो में जमा कराना होगा। शेष विक्रय मूल्य का 75% बँक हारा विक्रय की पुष्टि के 15 दिवस के भीतर या प्राधिकृत अधिकारी हारा लिखित में दी गई सहमति के अनुसार किसी वढी हुई समयावधि में जमा कराना होगा जिसमें चुक होने पर र्वेक क्रेता हारा पूर्व में भूगतान की गई/जमा की गई राशि को जब्त कर लेगा। बोलीदाता को बोली फॉर्म के लिए उक्त वेबसाईट www.yesbank.in और अपनी बोली प्रस्तृत करने व कार्यवाडी में भाग लेने से पूर्व विक्री के विस्तृत नियम व शतों के बारे में देखने की सलाड दी जाती है। विधिवत भरे हुए विवरणों के साथ केवल ऑनलाईन प्रारूप जमा किये जाएंगे

किसी भी अन्य प्राक्तप/अपूर्ण बोलियों में प्रस्तुत अस्वीकार किये जाने योग्य है। सभी बोली के फॉर्म केवाईसी दस्तावेजों के साथ होंगे जैसे (1) पेन कार्ड (2) आधार कार्ड/पासपोर्ट (3)वर्तमान पता (4) वेध ई–मेल आई डी (5) सम्पर्क नम्ब (मोबाईल/लेंडलाईन) इत्यादि। उक्त दस्ताबेजों की स्केन की गई प्रतियां अधोलिखत ई-मेल आईडी पर जमा की जाएगी। धरोहर राशि जो बिकी सकता में बर्णित प्रत्येक संपत्ति वे खिलाफ उल्लेखित है, आरटीबीएम/एनईएफटी/फण्ड टांमफर के जरिये निम्नलिखित खाते में अपनी ऑनलाईन बोलियां जमा कराने से पर्व जमा की जायेगी।

विवरण	ब्योरा
बैंक का नाम एवं शाखा	येस बैंक लिमिटेड, बीबी सीएडी दिल्ली इन्टर्नल एकाउन्ट, चाणक्यपुरी, दिल्ली
लाभार्थी का नाम	येस बैंक लिमिटेड, बीबी सीएडी दिल्ली इन्टर्नल एकाउन्ट
खाता संख्या	000389900000074
आईएफएससी कोड	YESB0000003 चाणक्यपुरी, दिल्ली

इच्छुक बोलीदाता को धरोहर राशि जमा करने का प्रमाण प्रारूप में बैंक को प्रस्तृत करना चाहिए जो बैंक में स्वीकार्य हो। बोलीदाता को मान्य मेल आई डी रखनी चाहिए क्योंकि प्रतिभति लेनदार/सेवा प्रदाता से सभी प्रासंगिक जानकारी केवल ईमेल के माध्यम से दी जा सकती है। संभावति इच्छक बोलीदाता ई-जीलामी में भाग लेने के लिए ऑनलाईन/व्यक्तिग प्रशिक्षण का लाभ उठाने के लिए उपर उल्लेखित सेवा प्रदाता से संपर्क से कर सकते हैं। हॉलांकि, न ही प्राधिकृत अधिकारी और न ही प्रतिभृति लेनदार या सेवा प्रदाता किसी भी तकनीकी समस्या अथवा विजली की विफलता आदि के लिए जिप्मेदार होगा। ई-नीलामी की कार्यवाही को बंद करने की तारीख से 7 दिनों के भीतर असफल बोलीदाता को धरोहर राशि वापस क दी जाएगी। बिक्री बैंक द्वारा पृष्टि के अधीन है। यदि, ऋणी/जमानतदार ईं–निलामी के निर्धारित तिथि और समय से एवं प्रतिभृति लेनदार के कारण सम्पूर्ण राशि का भूगतान करते है तो कोई बिक्री नहीं की जाएगी। प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान व जानकारी के लिए पूर्वोक्त गुणों पर कोई अन्य भार मौजूद नहीं है। हालांकि, भावी निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्तर पर शीर्षक / भार इत्यादि के संबन्ध में स्वतंत्र पूछताछ करें।

प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार, भार, सम्पत्ति कर या सरकार और किसी भी अन्य देव राशि के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा जो पूर्वोक्त बंधक संपत्ति के संबन्ध में है। संपत्तियों को सभी मीजूदा और भविष्य के भार के साथ बेचा जा रहा है, चाहे वह प्रतिभृति लेनदार को ज्ञात या अज्ञात हो। प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी निविदा/ निविदाओं (संपत्ति में से किसी के लिए) को अस्वीकार करने का अधिकार है अथवा बिना कोई कारण बताए ई-नीलामी को रह कर सकता है।

बिक्री की शर्तों के अनुपालन में प्राधिकृत अधिकारी क्रेता के पक्ष में बिक्री का प्रमाण पत्र जारी करेगा। स्टांप इयूटी, पंजीकरण शुल्क, कन्वेंस, वेट, टीडीएस आदि से संबन्धित सभी खर्च खरीददार द्वारा वहन किये जाएंगे। बिक्री सरफेसी अधिनियम/नियम 2002 में निर्धारित शर्तों और उपर उल्लेखित शर्तों के अधीन है।

इच्छक निविदाकर्ता नीलामी के बारे में अधिक जानकारी तथा संपत्तियों के निरीक्षण हेतु श्री अमनदीप सिंह (प्राधिकृत अधिकारी), मो. +91 9711154546 से सभी कार्य दिवसों वे दौरान प्रात: 10:30 से सार्य 6:00 के मध्य संपर्क कर सकते हैं। ऋणी /जमानतदारों को विक्रय नोटिस

उपर्युक्त को प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए नोटिस के रूप में माना जाएगा। हस्ताक्षर/- (प्राधिकृत अधिकारी) दिनांक: 07.09.2022 येस बैंक लिमिटेड

इंडिया रिसर्जेंस एआरसी प्राइवेट लिमिटेड

India RF तीसरी मंजिल, युनिट 304, पीरामल टॉवर, पेनिनसुला कॉपोरेंट पार्क, लोअर परेल, मुंबई -400013 नीलामी/बिक्री सचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभृति हित

अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए नीलामी सचना

ऋण अनुबंध संख्या XMORGUR00074554 (आवेदन आईडी 660910) के तहत रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (इसके बाद 'प्रतिभूत लेनदार') के पास बंधक नीचे वर्णित अचल संपत्ति की भौतिक नीलामी के संचालन के लिए एतद्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) के सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित कर्जदार वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (सरफैसी अधिनियम, 2002) की धारा 13(2) के तहत इसके अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी सूचना दिनांक 22 जून, 2021 की तिथि से 60 दिनों के भीतर प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहे और तदनुसार इसमें प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(3) के प्रावधानों के तहत और धारा 13(4) के प्रावधानों के तहत और उसमें निहित शक्तियों के उपयोग में नीचे उल्लिखित गिरवी संपत्ति का भौतिक कब्जा 07.02.2022 को प्रतिभृत लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया था।

जबिक कर्जदार देय राशि का भुगतान करने में विफल रहा है, अतः प्रतिभूत लेनदार ने अन्य ऋण समझौते के साथ-साथ सम्बन्धित ऋण अनुबंध और

अपने सभी अधिकारों, स्वामित्व, हित, और किसी भी अंतर्निहित प्रतिभृति हित प्लेज या ऐसे ऋणों के तहत गारंटी को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निगमित कंपनी और सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अनुसार परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी के रूप में नवंबर 2019 के पंजीकृत असाइनमेंट डीड के तहत पंजीकत इंडिया रिसर्जेंस एआरसी प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया आरएफ) को सौंपा है। इंडिया रिसर्जेंस एआरसी प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया आरएफ) ने एक सीलबंद लिफाफे में बोली सह नीलामी आमंत्रित करने की प्रक्रिया के माध्यम से अनसचित संपत्ति को 'जैसा है जहां है', 'जो है वहीं है' और जो कछ भी है यही है' के आधार पर निम्नलिखित संपत्ति/यों को इच्छक खरीदारों को निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर बेचने का फैसला किया है: कर्जदार का नाम और पताः 1. ई2 एज 2. गायत्री खन्ना, 3. मधु खन्ना, 4. रजत खन्ना सभी का पता : स्पेज टावर, आईटी पार्क, 1031,10वीं मंजिल, टावर बी3, सेक्टर 49, सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा-122001, यूनिट ऑफ 1031, टावर बी3,10वीं मंजिल, स्पेज आई टेक पार्क में आईटी ऑफिस,

सेक्टर 49, सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा-122001 प्रतिभूत ऋण (राशि रुपये में): 01.06.2021 को रु. 60,20,736 (रुपये साठ लाख बीस हजार सात सौ छत्तीस मात्र) तथा ब्याज और अन्य संविदात्मक

सम्पत्ति का विवरण

आईटी कार्यालय परिसर ओएफ-1031, माप 1017 वर्ग फुट (सुपर एरिया), टावर बी3 का समस्त भाग, स्पेज आईटेक पार्क, सेक्टर49, गुड़गांव मे

आरक्षित मल्यः रु. 55,00,000 (रुपये पैंसठ लाख मात्र) ईएमडीः रु. 5,50,000 (रुपये पांच लाख पचास हजार मात्र)

(क) बोलियां जमा करने की अंतिम तिथिः 09.10.2022 को दोपहर 12.00 बजेः एलेक्सा रेजोल्युशन एडवाइजर्स एलएलपी वाया इंडिया रिसर्जेंस एआरसी (पी)

लिमिटेड 601, टाइम टॉवर, सेक्टर 28, एमजी रोड, गुरुग्राम, हरियाणा-122009। (ख) बोलियां/नीलामी खोलने का समय और स्थानः 10.10.2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे उसी पते पर

1) उपरोक्त संपत्ति का पूरा विवरण अधिकृत प्राधिकारी के पास उपलब्ध है। अधिकृत प्राधिकारी के पास दिनांक एवं समय निर्धारित कर सम्पत्तियों/दस्तावेजों का निरीक्षण किया जा सकता है।

2) इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली अधिकृत प्राधिकारी को ''प्रतिभृत लेनदार'' के उपरोक्त कार्यालय के पते पर, एक सीलबंद लिफाफे में उस पर ''नीलामी के लिए बोली / संपत्ति की बिक्री'' लिखकर इंडिया रिसर्जेंस एआरसी प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में नई दिल्ली में देय आहरित डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ईएमडी 09.10.2022 को दोपहर 12.00 बजे तक भेजनी होगी।) सीलबंद बोलियां 10.10.2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे खोली जाएंगी और उसके बाद पात्र बोलीदाताओं को अधिकृत प्राधिकारी के विवेक पर प्रस्ताव मूल्य

बढाने के लिए परस्पर बोली में भाग लेने का अवसर दिया जा सकता है।

सफल बोलीदाता को बोली राशि का 25% (ईएमडी सहित) उसी दिन डीडी / चेक द्वारा नई दिल्ली में देय इंडिया रिसर्जेंस एआरसी प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में जमा करना होगा और सफल बोलीदाता द्वारा शेष राशि का भुगतान बैंक द्वारा बिक्री की पृष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर करना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा भुगतान की गई ईएमडी और बिक्री मूल्य पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि सफल बोलीदाता बिक्री की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या

कोई चुक करता है, तो जमा ईएमडी या बिक्री मुल्य का 25%, जो भी मामला हो, 'प्रतिभृत लेनदार' द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। सफल बोलीदाता नगर निगम या किसी अन्य प्राधिकारियों को सांविधिक देय/करों/बिलों आदि सहित और 'बिक्री प्रमाणपत्र' के पंजीकरण के लिए स्टाम्प शुल्क,

पंजीकरण शल्क आदि के लिए देय शल्क के सभी खर्चों को वहन करेगा । 5) इंडिया आरएफ किसी भी प्राधिकरण से या किसी अन्य कानून के तहत प्रस्तावित संपत्ति या किसी अन्य देय राशि यानी बकाया पानी / बिजली के बकाया,

संपत्ति कर या अन्य शुल्क, यदि कोई हो, के संबंध में कोई अनुमति / अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। प्राधिकृत अधिकारी को बिना किसी कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार है या बिना किसी पूर्व सुचना

के बिक्री की शर्तों को संशोधित किए बिना बिक्री को रद्द करने या स्थगित करने का पूर्ण अधिकार है। अपने सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार 'प्रतिभूत लेनदार' को 'प्रतिभूत लेनदार' के पास बेची जाने वाली संपत्तियों को छोड़कर किसी भी तरह के

ऋणभार की जानकारी नहीं है। इच्छुक पार्टियों को अपनी संतृष्टि के लिए संपत्तियों का अपना मूल्यांकन करना चाहिए। प्रतिभृत लेनदार उपरोक्त संपत्तियों के फिटनेस/स्वामित्व के संबंध में किसी भी तरह से गारंटी नहीं देता है या कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

किसी अन्य जानकारी के लिए दीपक खन्ना - 9818164585 और शक्ति श्रीवास्तव - 9811749628, Shakti.Srivastava@IndiaRF.com से उपरोक्त

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6(2), 8(6) और 9(1) के तहत 30 दिनों का वैधानिक नोटिस कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता को एतद्वारा नीलामी से पहले अद्यतन ब्याज और सहायक खर्चों के साथ ऊपर उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए अधिसचित किया जाता है, ऐसा न करने पर ऊपर उल्लिखित गिरवी रखी गई संपत्ति की नीलामी की जाएगी और बकाया राशि यदि कोई हो, ब्याज/लागत सहित

नोटः सरफेसी मांग सूचना जारी करने के बाद भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो, को वसूली/निपटान के समय भुगतान योग्य देय राशि का पता लगाने के लिए

इंडिया रिसर्जेंस एआरसी (प्राइवेट) लिमिटेड, अधिकृत अधिकारी दिनांक: 07.09.2022

पंजीकृत एवं कॉरपोरेट कार्यालय : येस बैंक हाउस, ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, संताकुज ईस्ट, मुम्बई— 400055, BANK ई मेलः communications@yesbank.in, वेबसाईट : www.yesbank.in :CIN: L65190MH2003PLC143249 क्षेत्रीय कार्यालयः ५वां तल, मैक्स टॉवर, सेक्टर १६वी, नोएडा, उत्तरप्रदेश- 201301

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना का प्रकाशन

वंधक अचल

यह सुचित किया जाता है कि निम्नलिखित ऋणीयों / जमानतदारों / बंधककर्ताओं जिन्होंने बैंक से प्राप्त ऋण सुविधाओं के मुलधन एवं ब्याज का भगतान करने में चुक की है तथा जिनके खाते को भारतीय रिजर्व बैंक की आस्तियों के वर्गीकरण हेतु मार्ग निर्देशिका के अनुसार उनके खाते के नियमित न होने के कारण गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकत किया जा चका है। उनकों वित्तीय आस्तियों का प्रतिभतिकरण एवं पनगंठन तथा प्रतिभति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत उनके अंतिम ज्ञात पते पर नोटिस निर्गमित किये थे तथा उन्हें इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जा रहा है।

ऋणा का नाम	बंधककर्ता (ऑ) का नाम	सम्पत्ति का विवरण	सूचना की दिनांक	की दिनांक	কুল গ্ৰহ্মাণা
1. आर आयुष एन्टरप्राईजेज (ऋणी) जरिये इसके प्रोपराईटर श्री आयुष बंसल, पता- दुकान प्लॉट नं. 141-बी, भूतल, गडोदिया माकेंट, खारी बावली, नई दिल्ली-	अायुष बंसल ('जमानतदार') पता- प्लॉट नंबर 33, शक्ति विहार, पीतम पुरा, नई दिल्ली- 110034, यहां भी- दुकान प्लॉट नं. 141-बी, भूतल, गडोदिया मार्केट, खारी बावली, नई दिल्ली- 110006 रिकट्ट कुमार बंसल ('बंधककर्ता और जमानतदार') पता- प्लॉट नं. 33, शक्ति विहार, पीतमपुरा, नई दिल्ली- 110034, 3. पूनम बंसल ('बंधककर्ता और जमानतदार'), पता- प्लॉट नंबर 33, शक्ति विहार, पीतमपुरा, नई दिल्ली- 110034, यहां भी: दुकान प्लॉट नंबर- 141/2, भूतल, गडोदिया मार्केट, खारी बावली, नई दिल्ली- 110006	एवं पूनम बंसल, सम्पूर्ण बिल्ट अप ! पर निर्मित क्षेत्रफल 131.66 वर्गम अधिकार जो नेशनल डिफेंस बकंस : सोसायटी लिमिटेड, वर्तमान में शां लेआएट प्लान में, पीतमपुरा, दिल्ली पूर्व : प्लॉट नं. 34, पश्चिम : प्लॉट चौड़ी, दक्षिण - 15 फीट चौड़ी सर्विस 2. बंधककर्ता - पूनम बंसल, दुकान क्षेत्रफल 230 वर्गफीट जो गडोदिया 110006 में स्थित, सीमाएं - पूर्व- दुकान नं. 142, उत्तर - 16 फीट चौ	की होल्ड सम्पन्धि ज, छन/टेरेस व कॉ-ऑपरेटिव ह क्त विहार के - 110034 में वं. 32, उत्तर लेन। प्लॉट नं. 141 मार्केट, खारी व दुकान नं. 14 डी कॉमन सड़क	ने नं. 33, भूमि वे आकाश तक ाउसिंग बिल्डिंग तम से ज्ञात के स्थित, सीमाएं- - रोड़ 30 फीट /2, भूतल पर, गवली, दिल्ली- 1/1, पश्चिम- , दक्षिण- दुकान	सत्यासी लाख अद्धासी हजार तीन सौ चौरानबे एवं उनचालीस पैसे मात्र) दिनांक 31.08.2022 तक + आगे का क्याज, लागते, खर्चे एवं शुल्क सहित।
10000000	110000	न. 146 REF No. Y	BL/ENF/DE	L/SEC 13(2)	/2022-2023/271

उपर्युक्त ऋणियों तथा उनके जमानतदारों/बंधककर्ताओं (जो भी लागू होते हैं) से बकाया राशि का इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 60 दिवस के भीतर भगतान करने की मांग की जाती है जिसमें चक होने पर 60 दिनों के उपरान्त सरफेसी अधिनियम की धारा 13 उपधारा (4) के अंतर्गत कटम उठाये जायेंगे। विपिन चौधरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनांकः 07.09.2022 स्थानः दिल्ली हस्ताक्षर/- (प्राधिकृत अधिकारी) वास्ते येस वैंक लिमिटेड, मोवाईल- +91 9582464343

जमानतदार(रॉ) एवं

TASTY DAIRY SPECIALITIES LIMITED

13(2)

एनपीए

CIN: L15202UP1992PLC014593

Registered Office: D-3, UPSIDC Industrial Area, Jainpur, Kanpur Dehat-209 311, Uttar Pradesh Tasty (airy Administrative Office: G-6, 12/483, Ratandham Apartment, McRobertganj, Kanpur -208001 Telefax No.: +91 0512 -2551643 Website: www.tastydairy.com E-Mail ID: info@tastydairy.com

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS FOR 30th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 30th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Friday, 30th September, 2022 at 02:30 p.m. through Video Conference ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") pursuant to MCA Circular No. No. 02/2022 dated May 5, 2022, read together with Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, circulars No. 19/2021 dated December 08, 2021 and Circular No. 21/2021 dated December 2021 (collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 to transact the businesses as set out in the Notice of AGM, which is being circulated for convening the AGM to the members.

Notice of the AGM along with the Annual Report for the FY 2021-22 is being sent only by electronic mode to those Members whose e-mail IDs are registered with the Company/Depositories in accordance with the aforesaid Circulars and will also be available on the Company's website www.tastydairy.com, websites of the Stock Exchange where shares of the company are listed i.e. www.bseindia.com. Notice of the AGM is also available on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") (agency for providing the Remote e-Voting and e-voting during AGM facility) i.e https://www.evoting.nsdl.com/ . Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only Instructions for joining the AGM/E-voting are provided in the Notice of the AGM. Members attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and above said Circulars, the Company is providing remote e-voting/e-voting during AGM facility to all its members to cast their votes on all resolutions as set out in the Notice convening AGM using electronic voting system (e-voting) provided by NSDL. Detailed procedure for remote e-voting/e-voting during the AGM

In order to comply with the requirements of Rule 18(3)(i) of the Companies (Management and Administration) Rules and the Circulars, the Company had given opportunity to all its members to register/update their E-mail IDs to enable them to receive Notice of the AGM, Annual Report, to cast their vote electronically. In case of Member who has not registered his email ID with the Company/Depository, is requested to follow the below instructions to register his e-mail ID for obtaining Annual Report and login details for e-voting.

(a) Members holding shares in Demat mode can get their E-mail ID registered by contacting their respective Depository

Cut-off date for the purpose of e-voting is 23/09/2022, Remote e-voting period begins on 27/09/2022 (09:00 a.m.) and will end on 29/09/2022 (5:00 p.m.) and shall not be allowed thereafter. Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 30 minutes before and after the scheduled time of the

Details pursuant to the provisions of the Act & the Rules and Secretarial Standards-2 are given hereunder:

commencement of the AGM. Members, whose names appear in the Register of Members / List of Beneficial Owners as on cut-off date, are entitled

to vote on the resolutions set forth in this Notice using remote e-voting/e-Voting system available during the AGM. Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member, after sending of the Notice and holding shares as on the cutoff date, may obtain the login ID and password by sending a request to NSDL. However, if he is

already registered with NSDL for remote e-voting, he can use his existing user ID and password for casting the vote. Members who need assistance before or during the AGM, can contact NSDL on evoting@nsdl.co.in / 1800 1020 990 and 1800 224 430 or contact NSDL at evoting@nsdl.co.in.

Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may participate in the AGM but shall not be entitled to cast their votes again during the AGM. Members present in the AGM through VC/OAVM facility who have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting, shall be eligible to vote through e-Voting system

Votes cast by the Members through the e-voting available during the AGM shall be considered valid only if he participates in the meeting through VC/OAVM facility.

Members (a) willing to express their views/ask questions during the AGM, are requested to register themselves as a speaker or (b) have queries may send their queries, by sending E-mail on cs@tastydairy.com with details as mentioned in the AGM notice at least 10 days prior to the AGM.

Pursuant to Section 91 of the Act and applicable rules thereunder that the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from 24/09/2022 to 30/09/2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM. In case you have any queries/issues regarding e-voting and members who need assistance before or during the

AGM, can contact NSDL on evoting@nsdl.co.in / 1800 1020 990 and 1800 224 430 or contact NSDL at evoting@nsdl.co.in. By order of the Board For Tasty Dairy Specialities Limited Date: September 07, 2022

Place : Kanpur

Company Secretary & Compliance Officer

बीसीएल इन्टरप्राईजेज लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय: 510, अरुणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली - 110001,

CIN: L65100 DL 1985PLC021467, ई—मेल: bclenterprisesltd@gmail.com, वेबसाइट: www.bclenterprisesltd.in

दूरभाष: 011-43080469

सूचना

एतदद्वारा सूचना प्रदान की जाती है कि कम्पनी की सैतीसवीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 को दोपहर 2:00 बजे बीजी- 223. संजय गाँधी टांसपोर्ट नगर, जीटी करनाल रोड, नई दिल्ली- 110042 में एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसाय निष्पादन हेतु आयोजित की जायेगी। एजीएम की सचना के साथ वित्तीय वर्ष 2021-2022 की वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों जिनके ई–मेल पते डिपाजटरीज/आटीए/कम्पनी एवं जिन सदस्यों के नाम सदस्यों की पंजिका/डिपाजटरीज के रिकार्ड में 02 सितम्बर, 2022 को अंकित थे, एमसीए परिपत्र दिनांक 05 मई, 2022 साथ में पठित परिपत्र दिनांक 08 जनवरी, 2021, 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, एवं 05 मई, 2020 एवं सेबी परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 के अनुसरण में केवल ई–मेल द्वारा भेज दी गई हैं। एजीएम कोविड-19 के महामारी की अवस्था में आवश्यक सावधानी बरतते हुए आयोजित की जायेगी।

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 108 साथ में पठित कम्पनीज (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियमन, 2014 जैसा कि सेबी (सूची दायत्वों एवं प्रकटीकरण आवश्यकताओं) नियमन, 2015 के विनियमन, 44 में संशोधित के अनुसरण में पुनः सूचना प्रदान की जाती हैः

- कम्पनी अपने सभी सदस्यों को ई–वोटिंग की सविधा उपलब्ध करा रही है ताकि वे अपना वोट इलेटानिकली माध्यम द्वारा एजीएम की सचना में वर्णित मदों पर दे सकें।
- ई-वोटिंग अवधि मंगलवार, 27 सितम्बर, 2022 को प्रातः 09:00 बजे प्रारम्भ होगी।
- ई-वोटिंग अवधि वीरवार, 29 सितम्बर, 2022 को सायं 05:00 बजे समाप्त होगी।
- कट ऑफ तिथिः 23 सितम्बर, 2022
- एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों की पंजिका अथवा डिपाटरीज द्वारा बनाये गई लाभदाई स्वामी की पंजिका में कट-ऑफ तिथि को अंकित है, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के साथ साधारण बैठक में वोटिंग के हकदार होंगे।
- जिस व्यक्ति ने सूचना को भेजने के बाद शेयर्स अर्जित किये हों एवं कम्पनी का सदस्य बना हो लेकिन कट–ऑफ तिथि से पहले, ई-वाटिंग की सुविधा हेतु लॉग इन आईडी एवं पास वर्ड प्राप्त करने के लिए एजीएम की सूचना में दिये गये अनुदेशों का पालन करें।
- कट–ऑफ तिथि को कम्पनी के भौतिक रूप में धारित सदस्य अथवा डिमैटरीलाइज प्रपत्र में धारित सदस्य ई–वोटिंग की सुविधा अथवा साधारण बैठक में मतदान प्रक्रिया के हकदार होंगे।
- उपरोक्त तिथि एवं समय के उपरान्त ई-वोटिंग की अनुमति नही दी जायेगी।
- एक सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट देने के बाद वार्षिक साधारण बैठक में भाग ले सकता है लेकिन फिर से बैठक में वोट देने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 10. इलेक्ट्रानिक माध्यम से वोटिंग से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की पृछताज अथवा शिकायत के लिए सदस्य लगातार प्रश्न पृछने (एफएक्यूज) एवं ई-वोटिंग के डाऊनलोड भाग www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध गाइड को संदर्भित कर सकते है अथवा सम्पर्क करें :-
- क) श्री दीपांशू रस्तौगी, टी--34, द्वितीय मंजिल, ओखला इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस- II, नई दिल्ली 110 020 ई-मेल: balmiki@masserv.com, दुरभाष: +91 11 2638 7281 /82 /83.
- ख) श्री महेन्द्र कुमार शारदा, (प्रबन्ध निदेशक), बीसीएल इन्टरप्राईजेज लिमिटेड, 510, अरूणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली - 110001. : ई—मेल: bclenterprisesltd@gmail.com. दरभाष: 011-43080469. 11. कम्पनी एजीएम को भौतिक रूप में संचालित कर रही है लेकिन उपरोक्त प्रावधानों एवं परिपत्र के अनुपालन में, सैतीसवीं एजीएम एवं
- वित्तीय वर्ष 2020-22 की वार्षिक रिपोर्ट सूचना की इलेक्ट्रानिक प्रतियाँ सभी कम्पनी के सदस्यों जिनके ईमेल पते कम्पनी/डिपाजटरीज भागीदार/रजिस्ट्रार एण्ड शेयर्स हस्तांतरण एजेन्ट ("आरटीए") के पास अंकित थे. को भेज दी गई हैं। 12. एजीएम की सूचना एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट साथ में www.evoting.nsdl.com के डाऊन लोड भाग, कम्पनी की
- वेबसाइट www.belenterprisesItd.in एवं स्टॉक एक्सचेन्जों जहाँ पर कम्पनी के शेयर्स सूचीबद्व हैं i.e. (बीएसई लिमिटेड एवं मैट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेन्ज ऑफ इण्डिया लिमिटेड) www.bseindia.com एवं www.msei.in पर क्रमशः उपलब्ध है। 13. ईमेल पते पंजीकरण/अपडेटिंग कराने का तरीका:

|तिथि: 06-09-2022

स्थान: नई दिल्ली

- क) जो शेयरधारक भौतिक माध्यम में इक्वीटी शेयर्स धारित जिन्होने अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेटेड नहीं कराये हैं, उनसे आग्रह है कि अपने ईमेल पते, पैन एवं बेकिंग विवरण कम्पनी/आरटीए के पास उपरोक्त जानकारी लिखित में कम्पनी को bclenterprisesItd@gmail.com पर साथ में हस्ताक्षरित पत्र नाम व शेयरधारक का पते का उल्लेख कर, बैंक विवरण एवं स्वअभिप्रमाणित पैन प्रतिलिपि/अन्य पते का कोई प्रमाण प्रस्तुत करें। ख) जो शेयरधारक डिमैटरीलाइज माध्यम में इक्वीटी शेयर्स धारित करते हो एवं अपना ईमेल पते एवं बैकिंग विवरण डिपाटरीज के
- पास पंजीकृत/अपडेटेड नहीं कराये हैं, से आग्रह है कि अपने ईमेल पते प्रासांगिक डिपॉटरीज भागीदारों के पास पंजीकृत/अपडेट 14. ई-वोटिंग द्वारा वोट देने का तरीकाः कम्पनी अपने सभी शेयरधारकों को एजीएम की सचना में वर्णित व्यवसाय में वोट देने के लिए
- रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करायेगी। रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट देने के लिए लागइन साख शेयरधारकों को ईमेल द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 91 एवं सेबी (सूची दायत्वों एण्ड प्रकटीकरण आवश्यकताओं) नियमन, 2015 के नियमन 42 प्रावधानों

के अनुसरण में कम्पनी के सदस्यों की पंजिका एवं शेयर हस्तांतरण किताबें शनिवार, 24 सितम्बर, 2022 से शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 तक (दोनों दिवस शामिल कर) एजीएम के उदेश्य हेतु बंद रहेंगी। कृते बीसीएल इन्टरप्राईजेज लिमिटेड

हस्ता०/-

महेन्द्र कुमार शारदा (प्रबन्ध निर्देशक)

DIN: 00053042

स्थानः नई दिल्ली कार्यालय का पताः 510, अरूणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली - 110001 तिथि : 06 सितंबर, 2022

हेक्सा ट्रेडेक्स लिमिटेड HEXA

सीआईएन . L51101UP2010PLC042382 **पंजीकृत कार्यालयः** ए-1, यूपीएसआईडीसी इडं . एरिया, नदं गावं राडे

कोसी कलां, जिला मथुरा (उ. प्र.) 281403 निगम कार्यालयः जिंदल सेंटर,12, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

नोटिस

रतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 11वीं वार्षिक आम बैठक गुरूवार, 29 सितम्बर, 2022 को दोपहर 12.30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, ए–1 यूपीएसऑईडीसी इंडस्टिंयल एरिया, नंदगांव रोड. कोसी कलां. जिला मथरा – 281403 (उ.प्र.) में उक्त वार्षिक आम बैठक बलाने के गोटिस में निर्धारित विषयों के निष्पादन हेत् आयोजित की जाएगी।

वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 के साथ एजीएम की सूचना केवल उन्ही सदस्यों को इलेक्टॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जा रही है, जिनके ईमेल पते कम्पनी / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं और जिनकी

इमेल पंजिकृत नही है उन अन्य सभी सदस्यों को भौतिक प्रतियां भेजी जा रही है । यह भी ध्यान दें कि नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 कम्पनी की वेबसाइट www.hexatradex.com, स्टॉक रुक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी क्रमश उपलद्ध होगी। कट ऑफ तिथि दिनांक 19 अगस्त, 2022 को शेयर रखने वाले सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 के साथ नोटिस रतदद्वारा यह भी सचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी के विनियम

42 (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटन आवश्यकताए) विनियम 2015 के अनुपालन में, कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर अंतरण किताब 23 सितम्बर, 2022 से 29 सितम्बर, 2022 (दोनों दिन शामिल) तक वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से बंद रहेंगे ।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 वे नियम 20 और सेबी (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटन आवश्यकताएं) 2015 के विनियम 44 वे अनुपालन में कंपनी अपने सदस्यों को दूरस्थ ई – वोटिंग की सुविधा प्रदान करती है जिससे वे कंपनी की 11वीं वार्षिक आम बैठक में पारित संकल्पों पर अपने वोट इलेक्टॉनिक विधि से दे सकें। सदस्य कपया निम्नलिखित नोट करें :

क. दूरस्थ ई—वोटिंग सोमवार, 26 सितम्बर, 2022 को सुबह 9.00 बजे आरंभ होगी और बुधवार,

28 सितम्बर, 2022 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी। ख. दुरस्थ ई—वोटिंग बुधवार, 28 सितम्बर, 2022 को शाम 5.00 बजे के बाद उपलब्ध नहीं होगी। ा. दुरस्थ ई—वोटिंग और मतदान के लिए वोटिंग हेतु सदस्यों की पात्रता के निर्धारण की कट ऑफ

तिथि 22 सितम्बर, 2022 है। प्र. कोई व्यक्ति जो बैठक की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और उसके पास कट आफॅ तिथि 22 सितम्बर, 2022 को शये रधारिता है तो वे आरसीएमसी शेयर रजिस्ट्री (प्र.) लि. कंपनी के आर एण्ड टी एजेंट बी-25/1, ओखला इंडस्टिंयल एरिया, फेज 2, नई दिल्ली-110020, फोन 011-26387320-23, फैक्सः 011-26387322, ई-मेल evoting.services@rcmcdelhi.com से संपर्क द्वारा अपने यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त

कर सकते हैं। दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा वोट देने वाले सभी सदस्य वार्षिक आम बैठक में भाग भी ले सकते हैं. किंतु उन्हें वार्षिक आम बैठक में अपना वोट देने की अनुमति नहीं होगी।

. मतदान के माध्यम से वोटिंग की सुविधा वार्षिक आम बैठक में केवल उन सदस्यों के लिए होगी जिन्हानें दूरस्थ ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट नही दिया है। सदस्य वार्षिक आमसभा की सूचना में बताए गए ई-वोटिंग के अनुदेश पढ़ें या

पछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्य) को देख सकते हैं और https://evoting.nsdl.com के

https://evoting.nsdl.com देखें और किसी पूछताछ के लिए आप सदस्यों के लिए बार बार

डाउनलोड सेक्शन में सदस्यों के लिए ई-वोटिंग प्रयोक्ता मैनुअल उपलब्ध है। हेक्सा ट्रेडेक्स लिमिटेड के लिए हस्ता / -

प्रवेश श्रीवास्तव

कम्पनी सचिव

एसीएस-20993

स्थानः नई दिल्ली तिथि : 06.09.2022

> **KUWER INDUSTRIES LIMITED** CIN: L74899DL1993PLC056627

Regd. Off: D- 1004, First Floor, New Friends Colony, New Delhi - 110025,

Tel: 011-2684 8636 Plant Address: A 71/72, Sector 58, Noida, U.P. 201301, Tel: 0120-2580 088/937, FAX: 0120-2580514 Email: investor.kuwer@gmail.com, info@kuwer.com Web: www.kuwer.com NOTICE OF 30TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Annual General Meeting (AGM) of the members of the company will be held on Thursday, the 29th September, 2022 at 10.00 A.M. at 339 Kishan Garh, Vasant Kunj, New Delhi 110070 to transact the businesses mentioned in the Notice of said AGM, which has been dispatched to the Members on 05th September 2022, along with the Annual Report for the year ended 31st March, 2022. Further, Pursuant to section 91 of the companies act, 2013 the register of members and

transfer book will remain closed from Thursday, 22nd September, 2022 to Thursday, 29th September, 2022 (Both days inclusive) for the purpose of 30th AGM. In pursuance of section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation of the SEBI (LODR). Regulation 2015, the Company is providing e-voting facility to its

Members as provided by CDSL on all resolution as set out in the Notice of 30th AGM Members of the company may transact the business through voting by electronic means The remote e-voting facility commence at 09.30 a.m. on Monday, 26th September 2022 and will end at 5.00 p.m. on Wednesday, 28th September, 2022 for all shareholders, whether holding shares in physical form or in dematerialized form The e-voting module shall be displayed by CDSL for Voting. Remote e-voting shall

not be allowed beyond the said date and time. The cut-off date to determine eligibility to cast votes by electronic Voting is Wednesday, 21st September, 2022.

A person, who acquires shares and become shareholders of the company after dispatch of Notice and holding shares as of the cut-off date can do remote e-voting by obtaining login-id and password by sending an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com/admin@skylinerta.com by mentioning their folio no./DP ID and Client ID No. However if such shareholder is already registered with CDSL for remote e-voting then existing user id and password can be used for remote

Facility for voting through ballot paper shall also be made available at the AGM Members attending the meeting, who have not already cast their vote by remote evoting, shall be able to exercise their right at the meeting.

A member may participate in the meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting, but shall not allowed vote again at the meeting Notice of AGM is available on company website www.kuwer.com and on the website

of CDSL-www.evotingindia.com. A person, whose name recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on 21st September, 2022, shall

In case you have any queries or issues regarding e-voting, kindly refer frequently asked questions and e voting manual available at www.evotingindia.com, under

Help section or Email helpdesk.evoting@cdslindia.com, Toll Free No. 1800-200-5533 or Jagdish Chandra, Company Secretary at investor.kuwer@gmail.com/011-2580088.

For Kuwer Industries Limited

Place: New Delhi

Tarun Aggarwal (Managing Director)



जेआईटीएफ इन्फ्रालॉजिस्टिस लिमिटेड सीआईएन - L60231UP2008PLC069245

पंजीकृत कार्यालयः ए–1, यूपीएसआईडीसी इंड. एरिया, नंदगांव रोड कोसी कलां, जिला मथुरा (उ. प्र.) 281403 वेबसाइटः www.jindalinfralogistics.com, ई—मेलः contactus@jindalinfralogistics.com

15वीं वार्षिक आम बैठक के लिए सूचना रतदद्वारा सचना दी जाती है कि कंपनी की 15वीं वार्षिक आम बैठक गरूवार, 29 सितम्बर, 2022 को दोपहर बाद 01.30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, ए—1 युपीएसआईडीसी इंडस्टिंयल एरिया, नंदगांव रोड, कोसी कलां, जिला मथुरा — 281403 (उ.प्र.) में कथित वार्षिक आम बैठक में दी गई

सूचना के कार्यों के निष्पादन हेतू आयोजित की जाएगी। एमसीए सर्कूलर और सेबी सर्कूलर दिनांक 12 मई, 2020 के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2021—22 के साथ एजीएम की सचना केवल उन्ही सदस्यों को इलेक्टॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जा रही है जिनके ईमेल पते कम्पनी / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकत हैं। जो सदस्य पंजीकत नहीं हैं. वे ध्यान दें कि नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2021—22 कम्पनी की वेबसाइट www.jindalinfralogistics.com, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी क्रमश उपलद्ध होगी। कट ऑफ तिथि दिनांक 19 अगस्त, 2022 को शेयर रखने वाले

सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 के साथ नोटिस भेजा जा रहा हैं। रतदद्वारा यह भी सचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी के विनियम 42 (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटन आवश्यकताए) विनियम 2015 के अनुपालन में, कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर अंतरण बहियां 23 सितम्बर, 2022 से 29 सितम्बर, 2022 (दोनों दिन शामिल) तक वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटन आवश्यकताएं) 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में कंपनी अपने सदस्यों को दूरस्थ ई – वोटिंग की सुविधा प्रदान करती है जिससे वे कंपनी की 15वीं वार्षिक आम बैठक में पारित संकल्पों पर अपने वोट इलेक्टॉनिक विधि से दे सकें।

सदस्य कपया निम्नलिखित नोट करें : क. दूरस्थ ई—वोटिंग सोमवार, 26 सितम्बर, 2022 को सुबह 9.00 बजे आरंभ होगी और बुधवार, 28 सितम्बर, 2022 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी।

ख. दूरस्थ ई—वोटिंग बुधवार, 28 सितम्बर, 2022 को शाम 5.00 बजे के बाद उपलब्ध नहीं होगी। ा. दरस्थ ई—वोटिंग और मतदान के लिए वोटिंग हेत सदस्यों की पात्रता के निर्धारण की कट ऑफ तिथि 22 सितम्बर, 2022 है।

व. कोई व्यक्ति जो बैठक की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और उसके पास कट आफॅ तिथि 22 सितम्बर, 2022 को शये रधारिता है तो वे आरसीएमसी शेयर रजिस्टी (प्र.) लि.. कंपनी के आर एण्ड टी एजेंट बी-25/1, ओखला इंडस्टिंयल एरिया, फेज 2, नई दिल्ली—110020, फोन 011—26387320—23, फैक्सः 011—26387322, ई—मेल evoting.services@rcmcdelhi.com से संपर्क द्वारा अपने यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

दरस्थ ई-वोटिंग द्वारा वोट देने वाले सभी सदस्य वार्षिक आम बैठक में भाग भी ले सकते हैं. किंतु उन्हें वार्षिक आम बैठक में अपना वोट देने की अनुमति नहीं होगी। . मतदान के माध्यम से वोटिंग की सविधा वार्षिक आम बैठक में केवल उन सदस्यों के लिए होगी

जिन्हानें दुरस्थ ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट नही दिया है। छ. सदस्य वार्षिक आमसभा की सूचना में बताए गए ई—वोटिंग के अनुदेश पढ़ें या

https://evoting.nsdl.com देखें और किसी पूछताछ के लिए आप सदस्यों के लिए बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) को देख सकते हैं और https://evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में सदस्यों के लिए ई-वोटिंग प्रयोक्ता मैनुअल उपलब्ध है।

जेआईटीएफ इन्फ्रालॉजिस्टिस लिमिटेड के लिए

आलोक कुमार कम्पनी सचिव

सीएस—19819

www.readwhere.com

हस्ताक्षर/- अमनदीप सिंह, सहायक उपाध्यक्ष

स्थान: नोएडा दिनांक: 07 सितम्बर, 2022



Regd. Office: 'Ideal Centre', 4th Floor, 9 AJC Bose Road, Kolkata - 700 017 E-mail: office@maithanalloys.com; Website: www.maithanalloys.com Phone No.: 033-4063-2393

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 37th Annual General Meeting ('the AGM') of Maithan Alloys Limited ('the Company') will be held on Wednesday, 28.09.2022 at 3:30 P.M. through Video Conferencing / Other Audio Visual Means ("VC"), for the purpose of transacting the businesses as set out in the Notice dated 30 May2022('the Notice') convening the AGM, which has been sen through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depository Participants (DP). Those Members, who have not registered their e-mail addresses with the Company or with their DP, may approach the Company/DP, as the case may be, for registration of their e-mail addresses, so that they can receive the Notice and Annua Report 2021-2022. The facility for appointment of proxies by the Members will not be available since the AGM is being held through VC. The Company has completed the dispatch of the Notice on Tuesday, 06.09.2022.

Book Closure & Dividend:

NOTICE is hereby also given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule framed thereunder that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company wi remain closed from Thursday, 22.09.2022 to Wednesday, 28.09.2022 (both days inclusive) for the purpose of annual closing and determining the names of the persons entitled to the dividence for the financial year 2021-2022, if declared at the AGM.

The Board of Directors has recommended a dividend of 6/- per equity share of 10/- each (i.e. @60%) for the financial year 2021-2022 to be paid on all equity shares of the Company. The proposed dividend, if approved by the Members, will be paid to those Members whose nam appear in the Company's Register of Members after giving effect to all the valid transmission(s)/transposition(s), if any, lodged upto the close of business hours on Wednesday. 21.09.2022. In respect of shares held in electronic form the dividend will be paid to those persons, whose name will be furnished as the Beneficial Owner by National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as on Wednesday, 21.09.2022.

Voting by Electronic means:

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rules framed thereunder, Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation) and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meetings, the Company is providing voting facility through the electronic voting system of CDSL to all its Members to exercise their right to vote on all the resolutions proposed to be considered at the AGM. The Members may cast their votes using electronic voting system provided by CDSL, either before the date of the AGM ('remote e-voting') or during the AGM('e-voting') Members are hereby further informed that:

- (a) all business items as set out in the Notice may be transacted through voting by electronic means provided by CDSL
- (b) the remote e-voting period will commence from 10:00 A.M. (IST) on Saturday, 24.09.2022; the remote e-voting period will end at 5:00 P.M. (IST) on Tuesday, 27.09.2022;

the cut-off date for the purpose of remote e-voting as well as e-voting during the AGM ('cut

- off date') is Wednesday, 21.09.2022; any person, who acquires the shares and becomes Member of the Company after dispatc of the Notice and holds shares as on the cut-off date may obtain the login ID and password
- by sending a request to the Company or its Registrar and Share Transfer Agent MaheshwariDatamatics Pvt. Ltd. at 5thFloor, 23, R. N. Mukherjee Road, Kolkata-700001 (Mr. S. K. Chaubey, Phone No.: 033-2248-2248; E-mail: mdpldc@yahoo.com) it may be noted that · the remote e-voting shall not be allowed beyond the time and date as mentioned above
- the Members who have not cast their votes using the remote e-voting facility, would be given the facility to vote through e-voting system provided by CDSL during the AGM: a Member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote

e-voting but shall not be allowed to vote again during the AGM;

- the facility to vote either through remote e-voting or through e-voting during the AGM, shall be made available only to those persons whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of beneficial owners maintained by the DP as on cut-off date. the Members are requested to follow the instructions given in the Note 26 of the Notice for
- participating in the Meeting through VC and e-voting during the Meeting. the Notice convening the AGM is displayed on the Company's website at 'www.maithanalloys.com' and on CDSL's website at 'www.evotingindia.com'.
- all correspondences/queries/grievances relating to remote e-voting/ e-voting may be addressed to Mr. Rajesh K. Shah, Company Secretary, Maithan Alloys Limited at Ideal Centre', 4th Floor, 9 AJC Bose Road, Kolkata -700017; e-mail: rajesh@maithanallovs.com;

For Maithan Alloys Limited Rajesh K. Shah Place: Kolkata Date: 06.09.2022 Company Secretary



RADICO KHAITAN LIMITED

CIN: L26941UP1983PLC027278

Registered Office: Rampur Distillery, Bareilly Road, Rampur - 244 901 (U.P.) Tel. No.: 0595-2350601/2, 0595-2351703 Fax No.: 0595-2350009 Email ID: investor@radico.co.in, Website: www.radicokhaitan.com NOTICE

Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting ("AGM") of the shareholders of the Company shall be held at the Registered Office of the Company at Rampur Distillery, Bareilly Road, Rampur-244901, Uttar Pradesh on Thursday, September 29, 2022 at 01.00 P.M. to transact the businesses mentioned in the Notice convening the said AGM which has been sent along with Annual Report for FY 2022 through e-mail on Tuesday September 06, 2022, to those shareholders whose e-mail id is registered with the Company/depositories. The aforesaid documents are available on the Company's website i.e. www.radicokhaitan.com, on the website of the Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of the Registrar & Share Transfer Agent ("RTA") i.e. https://evoting.kfintech.com.

Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Friday, September 23, 2022 to Thursday, September 29, 2022 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and paymen of final dividend.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, the Company is providing facility to its shareholders to enable them to cast their votes through electronic means ("Remote E-voting") on the items mentioned in the Notice. The Company has engaged Kfin Technologies Limited ("KFin") as the authorized agency to provide e-voting facility to the members. Members are requested to follow the instructions of e-voting which have been given in detail in the notice of

In connection with the Remote E-voting, we wish to notify the shareholders

(a) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e. Thursday, September 22, 2022, shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM by ballot papers.

(b) Details of the manner of casting votes is mentioned in the leafle annexed to the Notice of AGM, as sent to the shareholders, which is also displayed on the website of the Company a www.radicokhaitan.com and shall be displayed on the website of the E-voting agency, KFin Technologies Limited at https://evoting.kfintech.com.

c) Remote E-voting shall commence at 9.00 A.M. (IST) on Sunday, September 25, 2022 and shall be available till 5.00 P.M. (IST) on Wednesday, September 28, 2022 and shall not be available thereafter.

(d) Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. Thursday, September 22, 2022, may obtain the User ID and password inter alia by sending a request at e-voting@kfintech.com. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the AGM which is available on Company's website and Kfintech website. If the member is already registered with Kfintech for e-voting, he can use his existing User ID and password for casting the vote through remote e-voting.

(e) Kindly note that once you cast your vote through Remote E-voting, you cannot modify your vote or vote through ballot at the AGM However, you may attend the AGM and participate in the discussions

(f) The facility for voting through ballot papers shall be made available a the AGM and the members attending the AGM who have not casted their votes by Remote E-voting shall be able to vote at the AGM through Ballot Papers. (g) In case of any guery pertaining to E-voting, please visit Help & FAQ's

section available at Kfintech website https://evoting.kfintech.com (h) The members are requested to note the following contact details for addressing e-voting queries / grievances :

Mr. Suresh Babu D, Manager, KFin Technologies Limited, Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda Hyderabad - 500 032, Toll free No.1800-3094-001, Email

evoting@kfintech.com/ suresh.d@kfintech.com / einward.ris@kfintech.com By Order of the Board

Place: New Delhi

Date: 06.09.2022

financialexp.epap.in

For Radico Khaitan Limited

Sd./ Dinesh Kumar Gupta VP - Legal & Company Secretary

NOTICE FOR SALE OF ASSETS LML LIMITED (In Liquidation) (CIN: L34101UP1972PLC003612)

(Sale under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016)

In the matter of LML Limited (In Liquidation), applications are invited for participation in e-auction of the following assets on "As is where is basis", "As is what is basis" "Whatever there is basis" and "No recourse" basis: Block No. Reserve Price Land & Building Site-II & Site-III, Panki Industrial Area, Kanpur, UP (Area 67.56 acres)

Rs.144.25 crore Land & Building at Site-II, Panki Industrial Area, Rs. 33.14 crore Kanpur, UP (Area 15.21 acres) Land & Building at Site-III, Panki Industrial Area, Rs.111.85 crore Kanpur, UP (Area 52.35 acres) Land & Building at Site-III, Panki Industrial Area, Rs. 86.14 crore Kanpur, UP (Area 40.24 acres) Land & Building at Site-III, Panki Industrial Area, Rs. 26.73 crore Kanpur, UP (Area 12.11 acres) Please note that the total land area at Kanpur is 67.56 acres (Block 1) only. Out of

which, the liquidator is also giving option to prospective buyer to buy 15.21 acres

(Block 2) or 52.35 acres (Block 3) or 40.24 acres (Block 4) or 12.11 acres (Block 5) Last Date to apply: Thursday, September 22, 2022, Date of E-Auction: Friday, September 23, 2022 For Details: Visit www.lmlworld.in and https://ncltauction.auctiontiger.net

Contact; CA. Anil Bhatia, Tel No. 011-41066313, Mob. No.: +91 9899224476 Email id: Iml.auction@gmail.com Arun Gupta, Liquidator

Regd. Email: arungupta2211@gmail.com

IBBI Reg. No: IBBI/IPA-002/IP-N00051/2016-17/10095

Regd. Address: S-34, LGF, Greater Kailash-II, New Delhi-110048

HEXA TRADEX LIMITED CIN - L51101UP2010PLC042382

Place: New Delhi

Date: 07.09.2022

HEXA

Regd. Office: A-1, UPSIDC Indl. Area, Nandgaon Road,

Kosi Kalan, Distt. Mathura (U.P.)-281403 Corp. Office: Jindal Centre, 12, Bhikaiji Cama Place, New Delhi- 110066

NOTICE

Notice is hereby given that the 11th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, 29th September, 2022 at 12:30 P.M. at the registered office of the Company at A-1, UPSIDC Industrial Area, Nandgaon Road, Kosi Kalan, District Mathura-281403, (U. P.) to transact the business as set out in the Notice convening the said Annual General Meeting

Notice of the AGM along with the Annual Report 2021-22 is being sent through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depositories and physical copies to all other Members whose email is not registered. It is also note that the Notice and Annual Report 2021-22 is also be available on the Company's website www.hexatradex.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The Annual Report 2021-22 along with Notice is being sent to the members holding shares on cut off date 19th August, 2022.

Notice is also hereby given that pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 and regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Book of the Company shall remain closed from 23rd September, 2022 to 29th September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Further, pursuant to the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing remote e-voting facility to its members to cast their vote electronically on the resolutions to be transacted at 11th AGM of the Company.

The member please note the followings:

- a. The remote e-voting shall commence at 9.00 a.m. on Monday, 26th September, 2022 and shall end at 5.00 p.m. on Wednesday, 28th September, 2022.
- The remote e-voting shall not be available beyond 5.00 p.m. on Wednesday,
- The cut-off date for determining the eligibility of members for remote e-voting and voting through poll at AGM is 22nd September, 2022.
- Any person who becomes member of the Company after dispatch of notice of the meeting and holding shares as on cut-off date i.e. 22nd September, 2022, may obtain the user id and password by contacting M/s. RCMC Shares Registry (Pvt.) Ltd., R & TAgent of the Company at B-25/1, Okhla Industrial Area Phase II, New Delhi – 110020, phone-011-26387320-21, Fax-011-26387322, Email- evoting.services@rcmcdelhi.com.
- The members who cast their vote through remote e-voting may also attend the AGM but shall not be allowed to cast their vote at AGM
- The facility of voting through poll shall be available at the AGM to those members who have not casted their vote through remote e-voting.
- Members may go through the e-voting instructions provided in the AGM Notice or visit https://evoting.nsdl.com and in case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting User Manual for members available at the download section of https://evoting.nsdl.com

For Hexa Tradex Limited

Place: New Delhi Date: 06.09.2022

Pravesh Srivastava **Company Secretary** ACS: 20993

suvidhaa

SUVIDHAA INFOSERVE LIMITED CIN: L72900GJ2007PLC109642 Regd. Off.: Unit No 02, 28th Floor, GIFT-II Building, Block No. 56, Road-5C, Zone-5

Gift City, Gandhi nagar, Gujarat- 382355

Corporate office: 14. Olympus Industrial Estate, Off. Mahakali Caves Road, Andheri (E) Mumbai, Maharashtra - 400093

E-mail ID: cs@suvidhaa.com | Web: www.Suvidhaa.com NOTICE OF 15th ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE

The 15th Annual General Meeting (AGM) of the members of Suvidhaa Infoserve Limited (the 'Company') will be held on Wednesday, September 28, 2022 at 11:30 a.m. through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM). In compliance with General Circular numbers 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 02/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021 and May 05, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular number SEBI/H0/CFD/ CM01/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (hereinafter collectively referred to as 'Circulars'), Companies are allowed to hold AGMs through VC/OAVM, without the physical presence of members at a common venue. Hence, the AGM of the Company is being held through VC/OAVM to transact the business as set forth in the Notice of the AGM dated August 12,

In compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (as amended from time to time) and Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report 2021-22 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). These documents are also available on the website of the Company at www.suvidhaa.com under investor relations tab, stock exchange websites and on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility and VC/OAVM Facility) i.e. www.evoting.nsdl.com The dispatch of Notice of the AGM and Annual Report through emails has been completed on September 6, 2022

The Members shall join the meeting 15 (fifteen) minutes before the time scheduled to start the 15th AGM, and the facility allows participation of up to 1,000 Members on a first come

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its members the of remote e-voting and e-voting during the AGM through NSDL which shall enable the Members to cast their votes electronically on the resolutions mentioned in the Notice of AGM. The voting rights of Members shall be in proportion to the shares held by them, as on the cut-off date i.e., Wednesday, September 21, 2022. The Board has severally appointed Ashish C Doshi, Partner, M/s, SPANJ & Associates, Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer(s) for conducting the voting process in a fair and transparent manner.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member post-dispatch of the Notice of the AGM i.e., September 5, 2022, and holding shares as of on the cut-off date i.e. Wednesday, September 21, 2022 may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in by mentioning your Folio/DP ID and Client ID No. (16 digit Demat A/c No.) or may visit link: www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 for more details. However, if a person is already registered with NSDL for e-voting then the existing user ID and password can be used for casting their vote.

The members may note that: a) The remote e-voting period shall:

Commence: On Sunday, September 25, 2022 at 09.00 a.m.

End: On Tuesday, September 27, 2022 at 05.00 p.m. The remote e-voting module shall be

b) The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time; c) The member who have cast their vote through remote e-voting prior to the meeting may

also attend the AGM through VC/OAVM, but shall not be entitled to cast their vote again d) Any person whose name is recorded in the register of members or in the register of

beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting during the AGM; b) Once a vote is cast by the Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently; c) The facility for e-voting shall be made available during the AGM through VC/OAVM facility for the members who have not cast their vote by remote e-voting; and

d) The members who have cast their vote through remote e-voting shall not be entitled to cast their vote again. If a member casts votes by both the modes, then voting done through remote e-voting shall prevail and voting done during the AGM shall be disregarded. In case of any queries pertaining to e-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to (Name of NSDL Official) at evoting@nsdl.co.in.

Pursuant to Section 91 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013

and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, September 22, 2022 to Wednesday, September 28, 2022 (both days inclusive) for the purpose of 15th AGM. Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM

and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through

Remote e-voting or through e-voting during the AGM. For Suvidhaa Infoserve Limited

> Harish Chalam Company Secretary and Compliance Officer

Date: September 6, 2022 Place: Mumbai





CIN NO.: L60231UP2008PLC069245

Registered Office: A-1, UPSIDC Indl. Area, Nandgaon Road, Kosi Kalan, Distt. Mathura – 281403, India

Website: www.jindalinfralogistics.com, E-mail: contactus@jindalinfralogistics.com

NOTICE OF THE 15[™] ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 15th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Wednesday, 29th September, 2022 at 01.30 P.M. at the registered office of the Company at A-1, UPSIDC Industrial Area, Nandgaon Road, Kosi Kalan, District Mathura-281403. (U. P.) to transact the business as set out in the Notice convening the said Annual

In compliance with the MCA Circulars and SEBI Circular dated May 12, 2020, Notice of the AGM along with the Annual Report for the F.Y. 2021-22 is being sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/Depositories. Members whose email is not registered may note that the Notice and Annual Report for the F.Y. 2021-22 will also be available on the Company's website www.jindalinfralogistics.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The Annual Report for the F.Y. 2021-22 along with Notice calling AGM have been sent on 06th September 2022, to the Members of the Company who held shares as on 19th August 2022.

Notice is also hereby given that pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 and regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from 23rd September, 2022 to 29th September, 2022 (both days inclusive) for the

Further, pursuant to the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing remote e-voting facility to its members to cast their vote electronically on the resolutions to be transacted at 15th AGM of the Company.

The member please note the followings:

- a. The remote e-voting shall commence at 9.00 a.m. on Monday, 26th September, 2022 and shall end at 5.00 p.m. on Wednesday, 28th September, 2022.
- The remote e-voting shall not be available beyond 5.00 p.m. on Wednesday. 28th September, 2022.
- The cut-off date for determining the eligibility of members for remote e-voting and voting
- through poll at AGM is 22nd September, 2022. d. Any person who becomes member of the Company after dispatch of notice of the meeting and holding shares as on cut-off date i.e. 22nd September, 2022, may obtain the
- user id and password by contacting RCMC Shares Registry (Pvt.) Ltd., R & T Agent of the Company at B-25/1, Okhla Industrial Area Phase II, New Delhi – 110020, phone-011-26387320-21, Fax-011-26387322, Email-evoting.services@rcmcdelhi.com.
- The members who cast their vote through remote e-voting may also attend the AGM but shall not be allowed to cast their vote at AGM. The facility of voting through poll shall be available at the AGM to those members who
- have not casted their vote through remote e-voting. Members may go through the e-voting instructions provided in the AGM Notice or visit https://evoting.nsdl.com and in case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting User Manual for members available

For JITF Infralogistics Limited

Alok Kumar

ACS-19819

Company Secretary

Place: New Delhi Date: 06.09.2022

at the download section of https://evoting.nsdl.com



Cochin 682003, Tel: 0484-6624362, Fax: 0484-2668024 e-mail:hmlcorp@harrisonsmalayalam.com • Website:www.harrisonsmalayalam.com

NOTICE OF THE 45th ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) INFORMATION ON BOOK CLOSURE AND E-VOTING

Notice is hereby given that

1. The 45th Annual General Meeting (AGM) of the members of Harrisons Malayalam Ltd. ("the Company") will be held on Wednesday, September 28, 2022 at 12:00 Noon (IST), through Video Conferencing /Other Audio Visual Means (VC/OAVM) to transact the business as set out in the Notice convening the AGM, in compliance with General Circular numbers 02/2022 dated 5th May, 2022, 19/2021 dated 8th December, 2021 and all other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular number SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May 2022 and all other applicable circulars issued by the Securities and Exchange Board of India "SEBI Circulars"), without the physical presence of the Members at the AGM Venue. Accordingly the AGM of the Company is also being held through Video Conferencing/Other Audio Visual Means (VC/OAVM).

2.In compliance with the above Circulars, electronic copies of the Notice of the 45th AGM and Annual Report for the FY 2021-22 have been sent to members whose email ids are registered with the Company/Depository Participant(s). The Notice and Annual Report of the 45th AGM will also be available on the website of the company at www.harrisonsmalayalam.com, website of the Stock Exchanges ie. BSE Limited, National Stock Exchange of India Ltd., at www.bseindia.com, www.nseindia.com & on the website of CDSL at www.evotingindia.com The dispatch of notice of the AGM through emails has been completed as of now. The instructions for joining the 45th AGM of the Company and the manner of participation in the remote e-voting system or casting vote through the e-voting system during the 45th AGM of the Company are provided in the Notice of the 45th AGM.

3. Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the Cut-off date i.e Wednesday, September 21, 2022 may cast their votes electronically on the business as set forth in the Notice of the AGM through the electronic voting system of CDSL.

Members are hereby informed that:

a. The business as set forth in the notice of the AGM may be transacted

through remote e-voting or e-voting system during the 45th AGM. b. The remote e-voting period shall commence on Sunday, September 25, 2022 (9.00 a.m IST) and ends on Tuesday, September 27, 2022 (5.00 p.m IST).

c. The Cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or by e-voting system at the AGM shall be Wednesday, September 21, 2022.

d. Members may note: (i) The remote e voting module shall be disabled by CDSL after 5:00 pm (IST) on September 27, 2022 and once the votes on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; (ii) the facility for e-voting will also be made available during the AGM, and those members present in the AGM through VC/OAVM facility and who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system at the AGM. (iii) The members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again; and (iv) Only persons whose name is recorded in the register of the members as on the Cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or e-voting at the AGM.

e. The Manner of voting remotely for the members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for the members who have not registered their email addresses are provided in the Notice of the 45th AĞM which is also available on the website the Company. Members are requested to visit www.harrisonsmalayalam.com to obtain such details.

f. Any person who acquires shares of the Company and became member, post -dispatch of AGM Notice and holding shares as on the cut-off date may obtain login id and password by referring to instructions in the Notice of AGM or can also follow procedure mentioned below for registration of email id for obtaining future correspondence. PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL

ADDRESSES ARE NOT REGISTERED WITH THE DEPOSITORIES FOI OBTAINING LOGIN CREDENTIALS FOR E-VOTING FOR THE RESOLUTIONS PROPOSED IN THIS NOTICE: (i) Kindly log in to the website of our RTA, Link Intime India Private Ltd.

www.linkintime.co.in under Investor Services > Email/Bank detail Registration - fill in the details and upload the required documents and submit. The members are requested to provide details such as Name, Folio Number, Certificate number, PAN, e – mail id along with the copy of the PAN & cheque leaf with the first named shareholders name imprinted in PDF or JPEG format & also upload the image of share certificate with the request letter duly signed in PDF or JPEG format OR

ii) For Demat shareholders -, Please update your email id & mobile no. with your respective Depository Participant (DP) iii) For Individual Demat shareholders – Please update your email id &

mobile no. with your respective Depository Participant (DP) which is mandatory while e-Voting & joining virtual meetings through Depository. h. Pursuant to Section 91 of the Companies Act 2013 read with applicable Rules and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations &

Disclosure requirements) Regulations 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 22, 2022 to September 28, 2022 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting. i. The results declared along with the report of the scrutinizer shall be placed on the website of the company www.harrisonsmalayalam.com and also will be informed to the stock exchanges, www.bseindia.com and

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com. For any technical assistance/ query/ clarification or issues regarding remote e-voting / e-voting during the AGM, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Rakesh Dalvi

Transfer Agents at their e-mail ID: coimbatore@linkintime.co.in The above information is being published for the benefit & information of shareholders and is in compliance with the MCA Circulars and SEBI Circulars.

In case of any further queries, please contact our Registrar and Share

(022-23058542/43)

September 06, 2022

Binu Thomas Company Secretary

For Harrisons Malayalam Limited

EDAYAR ZINC LIMITED

Corporate Identity Number: U74110WB2000PLC091214 Registered Office: 37/2, Chinar Park, New Town, Rajarhat Main Road, P.O. Hatiara, Kolkata-700157, Tel.: +91 08100326795 Corporate Office: Mercantile Chambers, 12, J. N. Heredia Marg, Ballard Estate, Mumbai- 400001. Tel.: 022-30263000/01/02

E-mail ld: pb@binani.net INFORMATION TO THE SHAREHOLDERS ON THE 22nd ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM)

Shareholders may note that the 22nd Annual General Meeting ("AGM") of the Shareholders of Edayar Zinc Limited ("the Company") will be held on Thursday, 29th September, 2022 at 12.00 p.m. through Video Conference ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act. 2013 and Rules issued thereunder read with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) Circular General Circular No. 14/2020 dated 08th April. 2020, General Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, General Circular No. 20/2020 dated 05th May, 2020, General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021, 21/2021 dated December 14, 2021 and 2/2022 dated May 05, 2022 and other applicable circulars issued by MCA, and Government of India to transact the

In compliance with the above Circulars, the electronic copies of the Notice of the Annual General Meeting and the Annual Report for the Financial Year 2021-22 will be sent only to those shareholders whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants. The Notice of the 22nd Annual General Meeting and the Annual Report for the Financial Year 2021-22 will also be available on the Company's website at www.binaniindustries.com and on the websites of Link ntime India Private Limited at www.linkintimeindia.com

Manner of Participation and Voting in the AGM through VC / OAVM:

the VC / OAVM facility only and can cast their vote remotely or at the AGM on the business as set forth in the Notice of the AGM through the electronic voting system. The manner of participation and voting remotely or during the AGM for the Shareholders holding shares in dematerialized mode, physical mode and for Shareholders who have not registered their e-mail addresses will be provided in the

receiving Dividend directly in their bank account):

1. Shareholders holding Shares in Physical Mode: Shareholders holding shares in

Shareholders holding Shares in Dematerialized Mode: Shareholders are requested to register their e-mail ID/complete bank account details with the relevant Depository Participant(s) with whom they are holding their demat

The above information is being issued for the information and benefit of all the nembers of the Company and in compliance with the MCA Circular(s) and will also be available on the Company's website at www.binaniindustries.com and on the

M/s Link Intime India Private Limited (LIIPL) C-101, 247 Park, L.B. S Marg,

Vikhroli (West), Mumbai - 400 083 Tel: (022) 2596 3838 Fax: (022) 2594 6969

AETHER INDUSTRIES LIMITED Registered and Corporate Office: Plot No. 8203, GIDC Sachin, Surat - 394230, Guiarat, India Website: www.aether.co.in, Email: compliance@aether.co.in;

For Edayar Zinc Limited

Mohd. Bismith Allingal

Din: 08227170

Managing Director & CFO

10TH ANNUAL GENERAL MEETING OF AETHER INDUSTRIES LIMITED

the Company will be held on Tuesday, September 27, 2022, from 11:30 Hrs. (IST) through Video Conferencing ("VC" / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses, as set out in the Notice of the AGM in accordance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations, 2015") and in compliance with the procedure prescribed vide various circulars issued from time to time by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the

The Annual Report including the Notice of AGM which includes the process and manner of attending the AGM through VC / OAVM and e-voting has been e-mailed on September 5, 2022 to those members whose e-mail addresses are registered with the Company is

Annual Report including the Notice of the AGM:

The Annual Report including the Notice of the AGM is available on the website of the Company at: https://aether.co.in/wp-content/uploads/2022/09/Annual-Report-FY-2021-22.pdf, on the website of Stock-Exchanges viz. BSE Limited ("BSE") at: https://www.bseindia.com/, the National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at: https://www.nseindia.com/, and the Central Depositories Services (India) Limited ("CDSL") at: https://www.evotingindia.com/.

All the documents referred to in the AGM Notice shall be available for inspection of the members by accessing CDSL platform at: https://www.evotingindia.com/, during the

E-voting: As per the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015, Aether Industries Limited ("the Company") is pleased to provide its shareholders the facility to exercise their right to vote at the 10th AGM by electronic means. The facility of casting votes by the shareholders using an electronic voting system ("remote e-voting") will be provided by CDSL. The Notice of the AGM of the Company inter alia indicates the process

and manner of e-Voting and instructions for participation through VC.

paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e., as on September 20, 2022. Any person/s holding shares in physical form and non-individual shareholders, who acquire/s shares of the Company and become/s a shareholder/s of the Company after sending the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. August 26, 2022, may obtain the login ID and password by visiting https://web.cdslindia.com/myeasi/ Registration/EasiRegistration. However, if they have already registered with CDSL for remote e-Voting, then they can use their existing User ID and password for casting the vote. In the case of individual shareholders holding securities in demat mode and who acquire shares of the Company and become shareholder(s) of the Company after sending the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e., August 26, 2022, may follow the

Shareholders may further note that the facility for voting electronically shall be made available at the AGM and the shareholders attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting. Shareholders may participate in the AGM even after exercising their right to vote through remote evoting but shall not be allowed to vote again at the AGM.

A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM, electronically. Members who have not registered / updated their e-mail address and / or bank account details, are requested to register / update the same in the records of the Company /

Participant.

Through the Company's RTA i.e. Link Members holding shares in Physical Form Intime India Private Limited. The Scrutinizer (M/s. Dhiren R. Dave & Co., Company Secretaries) will submit their report to the Chairman of the Company ('the Chairman') or to any other person authorized by the Chairman after the completion of the scrutiny of the e-voting (votes casted during the AGM

to the Stock Exchanges, CDSL and will also be displayed on the Company's website. In case of queries or issues regarding e-voting or attending the meeting through VC, please contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, Central Depository Services (India) Ltd., 25th Floor, A Wing, Marathon Futurex, Mafatlal Mills Compound, N M Joshi

Marg, Lower Parel (E), Mumbai 400013, Maharashtra, India, E-mail:

helpdesk.evoting@cdslindia.com, Telephone: (+91 22) 23058542/43.

For Aether Industries Limited

Chitrarth Rajan Parghi Company Secretary & Compliance Officer

business, that will be set forth in the Notice of the AGM

Shareholders have the opportunity to attend and participate in the AGM through

Manner of registering/updating their E-mail ID/Bank Account Details (For

physical mode are requested to update their email address by writing to the Registrar and Share Transfer Agent of the Company, viz., Link Intime India Pvt. Ltd. at their below mentioned address or by sending email at rnt.helpdesk@linkintime.co.in along with the copy of the signed request letter mentioning the name and address of the Shareholder, Folio Number, scanned copy of the Share Certificate (front and back), self-attested copy of the PAN Card, and self-attested copy of Aadhar Card or self-attested copy of any document (eg.: Driving License, Election Identity Card, Passport, Utility Bill) in support of the address of the Shareholder and Original Cancelled Cheque leaf bearing the name of the first shareholder/Bank attested copy of first page of Bank Passbook/Statement of Account in original.

account, as per the process advised by your DP.

websites of the Link Intime India Private Limited at www.linkintimeindia.com The Shareholders may contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s Link Intime India Pvt. Ltd. quoting the Folio Number/DPID-Client ID at:

E-mail: rnt.helpdesk@linkintime.co.in

PLACE: MUMBAI DATE: 06.09.2022

CIN: L24100GJ2013PLC073434 Notice is hereby given that the 10th Annual General Meeting ("AGM") of the members of

Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

Registrar & Share Transfer Agent / Depositories as on August 26, 2022.

The remote e-voting period commences on Saturday, September 24, 2022, from 09:00 Hrs. (IST) and ends on Monday, September 26, 2022, at 17:00 Hrs. (IST). During this period, shareholders of the Company, may cast their vote electronically on the businesses set forth in the Notice. The e-voting module shall be disabled for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the same shall not be allowed to be changed subsequently.

The voting rights of shareholders shall be in proportion to the shares held by them of the

steps mentioned in the Notice of the AGM.

Depository, as the case may be, in the following manner: Members holding shares in Through their respective Depository

and votes casted through remote e-voting), not later than 48 hours from the conclusion of the AGM. The results declared along with the Scrutinizer's report shall be communicated

New Delhi

Date: September 6, 2022

Place: Surat

Demat Form